

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निकल बाजार में अप्रैल में 200 टन निकल की कमी रह गई है, जो एक महीने पहले 8,900 टन की कमी थी।
- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में मार्च में 22,000 टन की कमी की तुलना में अप्रैल में 3,000 टन अधिशेष है।
- दुनिया में पाम तेल के प्रमुख निर्यातक इंडोनेशिया ने अपनी घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) योजना के तहत 894,481 टन पाम तेल उत्पादों के निर्यात परमिट जारी किए हैं।
- चीन द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात मई में लगभग 1.98 मिलियन बैरल प्रति दिन या एक साल पहले की तुलना में 55% के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया, जिससे प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में सऊदी अरब विस्थापित कर दिया।
- भारत मिस्र और जॉर्डन को 500,000 मिलियन टन गेहूँ के निर्यात की अनुमति दे सकता है क्योंकि उन्हें काला सागर से गेहूँ की आपूर्ति सुरक्षित करना जोखिमपूर्ण लग रहा है।
- सीएआई का अनुमान है कि 2021-22 सीजन में कपास का उत्पादन 315.32 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान की तुलना में 8.31 लाख गांठ कम होगी।
- आईजीसी के अनुसार 2021-22 में कुल अनाज उत्पादन 2.29 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो गेहूँ और मक्के के अधिक उत्पादन के कारण 2020-21 में 2.22 बिलियन टन के अनाज उत्पादन की तुलना में 3% अधिक है।
- आईजीसी ने 2021-22 के वैश्विक स्तर पर सोयाबीन उत्पादन के अनुमान को 10 मिलियन टन बढ़ाकर 351 मिलियन टन कर दिया, लेकिन यह अभी भी पिछले साल के 369 मिलियन टन के उत्पादन से काफी कम है।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जिंक बाजार में अप्रैल में जिंक 10,900 टन के अधिशेष पर पहुंच गया है जबकि एक महीने पहले 31,700 टन के कमी दर्ज की गई थी।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.06.22	23.06.22	बदलाव (%)
सीसेम सीड	11505.00	12045.00	4.69%
धान	4521.00	4617.00	2.12%
मक्का	2210.00	2241.00	1.40%
बाजरा	2160.00	2163.00	0.14%
जीरा	21070.00	21090.00	0.09%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.06.22	23.06.22	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2788.00	2600.00	-6.74%
सोयाबीन	6788.00	6333.00	-6.70%
रिफाईंड सोया तेल	1430.70	1336.10	-6.61%
कपास	1734.50	1670.00	-3.72%
ग्वारगम	10588.00	10270.00	-3.00%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.06.22	23.06.22	बदलाव (%)
रबर	17550.00	17700.00	0.85%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	17.06.22	23.06.22	बदलाव (%)
कॉटन	46330.00	41720.00	-9.95%
नेचुरल गैस	542.60	500.30	-7.80%
तांबा	741.55	698.25	-5.84%
एल्युमीनियम	215.30	209.80	-2.55%
निकल	2153.30	2100.00	-2.48%

साप्ताहिक समीक्षा

कमोडिटीज गिरावट के दौर से गुजर रही हैं और उच्च स्तर से लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट देखी गई है। सीआरबी इंडेक्स पिछले सप्ताह 351.25 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था लेकिन 324 के करीब बंद हुआ क्योंकि फंड द्वारा त्वरित दर वृद्धि ने डॉलर सूचकांक और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी से बढ़ोतरी के बीच मंदी की आशंका पैदा कर दी है। एनर्जी काउंटर में तेज गिरावट के कारण कुल मिलाकर कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स की कीमतों में गिरावट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय गैसोलीन कर को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय इस सप्ताह के अंत तक आएगा, जिससे कच्चे तेल में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। तेल की कीमतों में इस कारण भी गिरावट हुई क्योंकि निवेशक चिंतित हैं कि मौद्रिक नीति को सख्त करने से मंदी आ सकती है और ईंधन की मांग कम हो सकती है। अमेरिकी और यूरोपीय हेज फंड दूसरी तिमाही के अंत से पहले अपने पोजिशन को बेच रहे हैं, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है। कमजोर मांग के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में भी गिरावट हुई और एमसीएक्स पर कीमतें 500 के स्तर को पार कर गईं। गैर-सीआईएस देशों में गजप्रॉम से गैस की बिक्री औसतन 307 एमसीएम/दिन तक गिरने के कारण रूसी पाइपलाइन गैस की आपूर्ति वर्षों में सबसे कम हो गई है। सर्राफा काउंटर पर अधिक दबाव देखा गया। फेडरल रिजर्व के प्रमुख ने कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इस प्रक्रिया में मंदी की संभावना से इंकार करने के बाद, सोने की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है लेकिन कमजोर डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमी से कीमतों को थोड़ा समर्थन मिला है। सोना और कुछ बेस मेटल की कीमतों में गिरावट से चांदी भी कमजोर रही। चीन में कोविड-19 चिंताओं और अमेरिकी ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर जाने की आशंका से धातुओं की मांग में कमी की चिंता के कारण तांबे की कीमतों में गुरुवार को 16 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। जून में जापान की फैंक्ट्री गतिविधि की वृद्धि धीमी हो गई क्योंकि चीन के सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण मैनुफैक्चरिंग मांग पर असर पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक चिली की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी कोडेलको के श्रमिकों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर एक स्मेल्टर को बंद करने के विरोध में बुधवार को एक बड़ी हड़ताल शुरू की। इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक निकल बाजार में अप्रैल में निकल की कमी 200 टन रह गई है, जो एक महीने पहले 8,900 टन की कमी थी।

कृषि कमोडिटीज में पूरे हफ्ते नरमी रही। घरेलू बाजार में सुस्त कारोबार के बीच आईसीई में कॉटन की कीमतों में गिरावट से एमसीएक्स कॉटन में भी तेज मुनाफावसूली हुई। सीएआई के अनुसार, उत्तर भारत में कपास के उत्पादन क्षेत्र में कमी के बावजूद कपास का रकबा 12% बढ़कर 135 लाख हेक्टेयर हो गया है। 2022/23 के लिए, भारत में कपास उत्पादन अनुमान वर्ष-दर-वर्ष 12% अधिक 27.5 मिलियन गांठ है। सकारात्मक खबरों की कमी के कारण ग्वार की कीमतें एक दायरे में रही। अच्छे मॉनसून की उम्मीद से कीमतें फिलहाल 10 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रही हैं। अच्छे निर्यात आंकड़ों के बावजूद कीमतों में 2022 के उच्च स्तर से लगभग 19% की गिरावट हुई है। हल्दी और जीरा की कीमतों में तेजी आई जबकि धनिया की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	17.06.22	23.06.22	(%)
जौ	जयपुर	3,180.95	3,172.65	-0.26
चना	दिल्ली	4,847.10	4,856.25	0.19
धनिया	कोटा	11,812.70	11,528.85	-2.40
कूड पॉम ऑयल	कांडला	1,280.55	1,163.95	-9.11
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,264.40	1,266.40	0.16
ग्वारसीड	जोधपुर	5,618.70	5,540.35	-1.39
ग्वारगम	जोधपुर	10,612.60	10,399.95	-2.00
जीरा	ऊझा	21,441.85	21,289.10	-0.71
सरसों	जयपुर	7,056.50	6,892.90	-2.32
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,450.00	1,352.50	-6.72
सोयाबीन	इंदौर	6,757.60	6,309.60	-6.63
हल्दी	निजामाबाद	8,276.55	8,132.80	-1.74
गेहूं	दिल्ली	2,263.25	2,261.35	-0.08
कॉटन	कड़ी	46,372.35	45,894.25	-1.03
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,044.30	2,921.70	-4.03

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.06.22	23.06.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2,498.00	2,477.50	-0.82
तांबा	LME	नकद	8,961.50	8,409.00	-6.17
लेड	LME	नकद	2,061.50	1,947.50	-5.53
निकल	LME	नकद	25,669.00	24,038.00	-6.35
जिंक	LME	नकद	3,523.50	3,491.50	-0.91
सोना	COMEX	अगस्त	1,840.60	1,825.70	-0.81
चांदी	COMEX	जुलाई	21.59	21.04	-2.55
लाइट कूड	NYMEX	अगस्त	107.99	104.27	-3.44
नेचुरल गैस	NYMEX	जुलाई	6.94	6.239	-10.15

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	17.06.22	23.06.22	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	17.02	15.93	-6.40
सोया तेल	CBOT	जुलाई	73.79	67.71	-8.24
कॉटन	ICE	दिसम्बर	118.29	102.01	-13.76
सीपीओ	BMD	सितम्बर	5,353.00	4,744.00	-11.38

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	17.06.22 क्वांटिटी	23.06.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	50	50	0
जौ	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	57,267	53,586	-3681
धनिया	मी.टन	10,708	10,414	-294
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	45,925	43,241	-2684
ग्वारगम	मी.टन	18,405	18,007	-398
ग्वारसीड	मी.टन	27,765	27,247	-518
जीरा	मी.टन	7,129	6,187	-942
मक्का	मी.टन	50	50	0
सोयाबीन	मी.टन	278	278	0
हल्दी	मी.टन	4,633	4,714	81

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	17.06.22 क्वांटिटी	23.06.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3,155.20	3,188.15	33
तांबा	मी.टन	1,381,118.00	1,368,091.00	-13027
सोना	किग्रा	435.00	435.00	0
सोना गिनी	किग्रा	14,096.00	14,096.00	0
सोना मिनी	किग्रा	40,300.00	36,500.00	-3800
लेड	किग्रा	364.22	318.48	-46
निकल	किग्रा	8,869.00	23,600.00	14731
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	37,784.57	44,277.89	44137
जिंक	मी.टन	140.92	125.17	125

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 17.06.22	स्टॉक की स्थिति 23.06.22	अंतर
एल्युमीनियम	411,575	395,575	-16,000
तांबा	121,000	114,175	-6,825
निकल	68,992	68,460	-532
लेड	38,825	39,700	875
जिंक	79,575	78,600	-975



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जुलाई	21090.00	11.05.22	तेजी	21200.00	20550.00	-	20500.00
NCDEX	ग्वारसीड	जुलाई	5491.00	30.05.22	मंदी	6000.00	-	5970.00	6000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जुलाई	2600.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	2980.00	3000.00
MCX	रबर	जुलाई	-	-	-	-	-	-	-
MCX	मेंथा ऑयल	जुलाई	1045.90	23.05.22	मंदी	1080.00	-	1077.00	1080.00
MCX	बुलडेक्स	जुलाई	14253.00	16.05.22	तेजी	14200.00	14250.00	-	14200.00
MCX	चांदी	जुलाई	59504.00	23.06.22	मंदी	59504.00	-	61500.00	61700.00
MCX	सोना	अगस्त	50594.00	16.05.22	तेजी	50000.00	50400.00	-	50350.00
MCX	मेटलडेक्स	जुलाई	17963.00	23.06.22	साइडवेज	17963.00	17500.00	18200.00	-
MCX	तांबा	जुलाई	698.25	13.06.22	मंदी	770.00	-	787.00	790.00
MCX	लेड	जुलाई	180.65	25.04.22	मंदी	187.00	-	189.00	190.00
MCX	जिंक	जुलाई	307.00	13.06.22	मंदी	315.00	-	332.00	335.00
MCX	निकल	जुलाई	-	-	-	-	-	-	-
MCX	एल्युमिनियम	जुलाई	209.80	13.06.22	मंदी	225.00	-	233.00	235.00
MCX	एनर्जीडेक्स	जुलाई	-	-	-	-	-	-	-
MCX	कच्चा तेल	जुलाई	8222.00	23.06.22	मंदी	8222.00	-	8700.00	8750.00
MCX	नेचुरल गैस	जुलाई	500.30	23.06.22	मंदी	494.80	-	560.00	570.00

*23/06/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पज़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

सोना (अगस्त) एमसीएक्स



सोना (अगस्त) एमसीएक्स

एमसीएक्स में सोना(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 23 जून 2022 को 50594.00 रु पर बंद हुआ। 18 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 53904.00 रु के उच्च स्तर पर था। 16 मई 2022 को 49741.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 44.385 है। 51450.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 50100.00 रु के टारगेट के लिए 51000.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

धनिया (अगस्त) एनसीडीईएक्स



धनिया (अगस्त) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में धनिया(अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 23 जून 2022 को 11240.00 रु पर बंद हुआ। 19 मई 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 12270.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 21 जून 2022 को 10900.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 40.059 है। 10900.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 11800.00 रु के टारगेट के लिए 11200.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

नेचुरल गैस (जुलाई) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (जुलाई) एमसीएक्स

एमसीएक्स में नेचुरल गैस(जुलाई) कॉन्ट्रैक्ट 23 जून 2022 को 500.30 रु पर बंद हुआ। 08 जून 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 749.10 रु के उच्च स्तर पर था। 23 जून 2022 को 487.20 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 31.048 है। 545.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 440.00 रु के टारगेट के लिए 510.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

पिछले हफ्ते मसालों के काउंटर में निचले स्तरों से रिकवरी हुई है लेकिन अभी भी नरमी का रूझान है। जीरा वायदा की कीमतें 8 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं जबकि हल्दी और धनिया वायदा की कीमतें क्रमशः 7 महीने और 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हल्दी वायदा (जुलाई) की कीमतें 7580 के स्तर के पास सपोर्ट मिला और फिर पिछले सप्ताह के दौरान शॉर्ट कवरेज के कारण लगभग 3.7% की रिकवरी हुई। अब यदि कीमतें 7900 के स्तर से ऊपर बनी रहती है तो यह तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करते हुए 8200 तक बढ़ सकती है। स्थानीय मांग और निर्यात पूछताछ में बढ़ोतरी की रिपोर्ट से कीमतों को निचले स्तरों से समर्थन मिल रहा है। दक्षिण भारत में अच्छी बुवाई की प्रगति और किसानों के पास पर्याप्त स्टॉक होने से कीमतों में पिछले सप्ताह लगभग 7% की गिरावट हुई है। इसके अलावा, निर्यात मांग में सुधार हो रहा है जबकि आकड़ों के अनुकूल हो रही है। अप्रैल 2022 में हल्दी का निर्यात अप्रैल 2021 के 13280 टन की तुलना में 3.61% बढ़कर 13760 टन हो गया है। वित्त वर्ष 2021/22 में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 16.7% घटकर 1.53 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 10% अधिक है।

जीरा वायदा (जुलाई) की कीमतें लगातार पांच सप्ताह तक गिरावट दर्ज करने के बाद 8 सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी हुई हैं। पिछले सप्ताह कीमतों को 20500 के स्तर पर सपोर्ट मिला और पिछले सप्ताह के दौरान 3.2% की रिकवरी हुई। उम्मीद है कि अगर कीमतें 21250 के स्तर को पार करती हैं तो कीमतें 21900 तक बढ़ जाएंगी। कम निर्यात और पर्याप्त आवक के कारण अप्रैल 2022 से कीमतों में लगभग 12% की गिरावट हुई है। 2021/22 में कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 57.60% अधिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में जीरा का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 66% कम होकर 10700 टन हुआ है, जो पिछले 6 वर्षों में अप्रैल महीने सबसे कम निर्यात है, जबकि 2022 के पहले 4 महीनों में निर्यात पिछले साल की समान अवधि के 1 लाख टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 46% घटकर 54000 टन रह गया है।

धनिया वायदा (जुलाई) की कीमतें 12 सप्ताह के निचले स्तर पर फिसल गई और 10774 के स्तर पर सपोर्ट मिला। लेकिन कीमतों में अभी भी नरमी का रूझान है क्योंकि इसे 11250 के स्तर के पास रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। अब कीमतें 10600-11400 के दायरे में साइडवेज कारोबार कर सकती है। वर्तमान में उत्पादन में कमी की आशंका से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 66% अधिक हैं और जनवरी 2022 के बाद से 24% अधिक हैं। लेकिन कम निर्यात और भौतिक बाजार में अधिक आवक के कारण 2022 के उच्च स्तर से लगभग 17% की गिरावट हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में धनिया का निर्यात अप्रैल 2021 के 5500 टन की तुलना में 27.1% कम होकर 4020 टन रह गया है, जबकि 2022 के पहले 4 महीनों में निर्यात पिछले साल के 19,770 टन से 23.5% घटकर 15,100 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 12% अधिक है।

अन्य कमोडिटीज

पिछले हफ्ते, कॉटन वायदा (जुलाई) की कीमतों में 7% से अधिक की गिरावट हुई, जिसका मुख्य कारण मौजूदा उच्च स्तर पर कम मांग की संभावना और आने वाले सीजन में अच्छे उत्पादन की उम्मीद रही है। अभी भी कीमतों में नरमी का रूझान है। और 38000 रु तक बिकवाली हो सकती है। सीएआई के अनुसार, उत्तर भार में कपास के उत्पादन क्षेत्र में कमी के बावजूद कपास का रकबा 12% बढ़कर 135 लाख हेक्टेयर हो गया है। वर्तमान में, कम उत्पादन के बीच देश में कम स्टॉक के कारण कपास की कीमतें साल-दर-साल 87% अधिक हैं। हाल ही में, सीएआई ने 2021-22 सीजन के लिए कपास के उत्पादन अनुमान को इस महीने 8 लाख गांठ से अधिक घटाकर 315.32 लाख गांठ कर दिया है, जबकि 2022-23 में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6.2% बढ़ाकर 6,080 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास की कीमतों में एक महीने से गिरावट हो रही है क्योंकि दक्षिण भारत में 100% मिलाओं को बंद करने और कपास की खरीद बंद करने का निर्णय लिए जाने के कारण कपड़ा क्षेत्र से कपास की मांग सीमित है। इसके अलावा, मई के महीने में कपास और धागे का अधिक आयात हुआ है।

मौसम विभाग द्वारा सामान्य मौसम की रिपोर्ट आने के बाद हुई मुनाफावसूली से पिछले सप्ताह ग्वारसीड वायदा (जुलाई) की कीमतें पिछले हफ्ते 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई लेकिन निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी से कीमतों में कुछ रिकवरी हुई। साप्ताहिक आधार पर, कीमतों को 5300 के स्तर पर अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है और 5750 के स्तर पर रजिस्ट्रेस है। यदि कीमतें सपोर्ट स्तरों से ऊपर बनी रहती है, तो इसके एक दायरे में कारोबार करने की संभावना है। राजस्थान में ग्वारसीड का उत्पादन क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 64% कम होकर 104000 हेक्टेयर रह गया है। बेहतर निर्यात के बावजूद 2022 के उच्च स्तर से कीमतों में लगभग 19% की गिरावट हुई है। अप्रैल 2022 में ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 7% बढ़कर 29132 टन हो गया है, जबकि जनवरी-अप्रैल 2022 के दौरान निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 65275 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 22% बढ़कर 79,650 टन हो गया। पिछले पांच साल के औसत 4 लाख निर्यात की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में ग्वारगम निर्यात लगभग 20% कम हुआ है।

अरंडी वायदा (जुलाई) की कीमतें पिछले महीने अपने अब तक के उच्च स्तर को छूने के बाद लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुई। वर्तमान में कीमतों को 7000 पर सपोर्ट जबकि रजिस्ट्रेस 7475 पर है और कीमतें सपोर्ट और रजिस्ट्रेस के दायरे में कारोबार कर सकती है। वर्तमान में, बुवाई की धीमी शुरुआत और कम कड़ी-ओवर स्टॉक के कारण कीमतें वर्ष-दर-वर्ष लगभग 43% अधिक हैं। गुजरात राज्य के कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अरंडी के तहत कुल उत्पादन क्षेत्र पिछले साल के 155 हेक्टेयर की तुलना में केवल 16 हेक्टेयर है। निर्यात के मोर्चे पर, घरेलू बाजार में उच्च कीमतों के बावजूद मई 2022 में अरंडीमूल और अरंडी के तेल का निर्यात अधिक हुआ है। अरंडी की लगातार मांग से बुवाई के मौसम में कीमतों को समर्थन मिलेगा।

मेंथा ऑयल (जुलाई) की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर रही है और पिछले सप्ताह किसी फंडामेंटल के अभाव में निचले स्तर पर बंद हुई। पिछले एक महीने से कीमतें 1035-1040 के स्तर के करीब सपोर्ट ले रही है जबकि 1080 के स्तर पर रजिस्ट्रेस दिख रहा है। यदि कीमतें सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं, तो 950 तक लुढ़क सकती है।

सर्पिका

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की चिंताओं के कारण बुलियन की मांग में कमी के कारण सोने में पूरे सप्ताह गिरावट हुई और यह लगातार दूसरी गिरावट की ओर अग्रसर है। फेड चेर जेरोम पॉवेल ने दोहराया कि केंद्रीय बैंक की मुद्रास्फीति से लड़ाई 'बिना शर्त' है, जबकि फेड गवर्नर मिशेल बोमन ने कहा कि वह जुलाई में फिर से ब्याज दर में 75-बेसिस प्वाइंट की वृद्धि का समर्थन करती है, इसके बाद फिर से आधे-अंक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड से सप्ताह के निचले स्तर तक फिसल गई, क्योंकि निवेशक वैश्विक स्तर पर संभावित आर्थिक मंदी के बारे में चिंतित थे। अमेरिकी डॉलर स्थिर बना हुआ है, और अब फेड द्वारा जुलाई में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की उम्मीद है। जून्ट स्प्रेड-मुद्रास्फीति के अनुमान के लिए एक बाजार-आधारित प्रॉक्सि-भी 4 महीने के निचले स्तर के करीब है, और इस कारण सोने की कीमतों की तेजी पर रोक लगी है। सोना 200-दिवसीय औसत 1,850 डॉलर को तोड़ने में असमर्थता को देखते हुए निकट भविष्य में कमजोर दिख रहा है। सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट, की होल्डिंग 0.81% गिरकर 1,063.07 टन हो गई है। उच्च ब्याज दरें और अधिक बांड यील्ड बुलियन धारण करने की अवसर लागत को बढ़ाते हैं, जिससे कोई ब्याज नहीं मिलता है। वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण सोने की कीमतों में सीमित गिरावट हुई है, लेकिन फंड के रुख से अमेरिकी डॉलर को समर्थन मिल सकता है और इससे सोने की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तकनीकी मोर्चे पर, कोमेक्स में सोने की कीमतों को 1860 डॉलर के पास रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, और रजिस्ट्रेस स्तर के नीचे बिकवाली की जा सकती है। इस सप्ताह में, सोने की कीमतों में नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है जहां निकट रजिस्ट्रेस को बेचना एक रणनीति होगी। सोने की कीमतें 49200-51500 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतों में भी इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है जहां यह 57500-61800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

बढ़ती ब्याज दरों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर जाने की आशंका से तेल की मांग में कमी आने की चिंता से तेल की कीमतों दूसरी साप्ताहिक गिरावट हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने गुरुवार को कहा कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने पर केंद्रीय बैंक की लड़ाई 'बिना शर्त' है। इस बात को लेकर आम सहमति बनी हुई है कि गर्मियों के महीनों में तेल बाजार में उच्च मांग और कम आपूर्ति होगी, जिससे गिरावट सीमित हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार ओपेक और रूस सहित संबद्ध उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति को कम करने की उम्मीद में अगस्त में तेल उत्पादन में वृद्धि की योजना पर टिके रहेंगे जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। ओपेक + की बैठक 30 जून को होने वाली है जिसमें समूह के 2 जून को अपनी पिछली बैठक में जुलाई में प्रति दिन 648,000 बैरल, या वैश्विक मांग का 7%, और अगस्त में समान मात्रा में, 432,000 बैरल प्रति दिन जोड़ने की प्रारंभिक योजना पर बने रहने की संभावना है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जहां इसे 7800 के पास सपोर्ट मिल सकता है और 8400 के पास रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। ईआईए की साप्ताहिक भंडारण रिपोर्ट के जारी होने के बाद नेचुरल गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर रूझान को देखते हुए, यह पाया गया है कि कीमतों ने एमसीएक्स पर पहले ही अहम सपोर्ट को तोड़ दिया है जबकि कोमेक्स पर कीमतें 6,100 डॉलर के सपोर्ट के करीब कारोबार कर रही हैं। इस सप्ताह में नेचुरल गैस की कीमतों में बिकवाली जारी रह सकती है और इसे 440 के स्तर के पास सपोर्ट मिल सकता है और 540 के स्तर के पास रजिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों में आक्रामक बढ़ोतरी ने आर्थिक मंदी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रायटर के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व जुलाई में फिर से दर में 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि करेगा, इसके बाद सितंबर में आधा-प्रतिशत-बिंदु की वृद्धि करेगा, और जल्द से जल्द नवंबर तक चौथाई प्रतिशत-बिंदु की बढ़ोतरी से पीछे नहीं हटेगा। एशिया से लेकर यूरोप तक मैनुफैक्चरिंग विकास धीमा हो रहा है क्योंकि चीन में कोविड-19 प्रतिबंधों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है, जबकि संयुक्त राज्य में मंदी का बढ़ता जोखिम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया खतरा बन गया है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि यूरो क्षेत्र के कारोबार की वृद्धि जून में काफी धीमी हो गई है क्योंकि उपभोक्ताओं ने घर पर रहने और पैसे बचाने के लिए खरीदारी टालने का विकल्प चुना है। लेकिन शॉर्ट कवरीज से तेजड़ियों को कुछ राहत मिल सकती है। तांबे की कीमतें 680-725 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चिली की सरकारी खनन फर्म कोडेलको में संघ के नेताओं ने अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित एक स्मेल्टर को बंद करने के निर्णय पर एक राष्ट्रीय हड़ताल समाप्त करने के लिए कंपनी के साथ एक समझौता किया। एल्युमीनियम की कीमतें 200-220 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। जिंक की कीमतें 298-320 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई के पंजीकृत गोदामों में उपलब्ध जिंक का भंडार पिछले सप्ताह आधे से अधिक कम हो गया, लेकिन आपूर्ति चीन से की जा सकती है, जहां स्टॉक बढ़ रहा है। आईएलजेडएसजी के अनुसार वैश्विक जिंक बाजार में अप्रैल में 10,900 टन जिंक सरप्लस रहा है जबकि एक महीने पहले 31,700 टन की कमी थी। लेड की कीमतें 175-187 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। निकल की कीमतें 2050-2200 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

तांबाहरित अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर

औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक स्तर पर उपयोग को देखते हुए तांबे को अक्सर आर्थिक मांग के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। हरित अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक प्रयासों के तहत तांबे का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में किया जाता है। कई उद्योगों में निरंतरता और दक्षता के प्रयासों के लिए दुनिया की बढ़ती प्रतिबद्धता के कारण नए तरीके अपनाने में तांबा अग्रणी है। वर्तमान में तांबे की कीमतें एक साल में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, क्योंकि आशांका यह है कि ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाएगी, जबकि चीन कोविड-19 लॉकडाउन से जूझ रहा है, जिससे धातुओं की मांग प्रभावित हुई है।

खदानों से तांबे का उत्पादन


- अंतर्राष्ट्रीय तांबा अध्ययन समूह ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले चार महीनों में विश्व स्तर पर खदानों से तांबे के उत्पादन में लगभग 2.9% की वृद्धि हुई है।
- कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध और कार्यबल की अनुपलब्धता के कारण 2022 की शुरुआत में कई खदानों से उत्पादन बाधित रहा।
- लेकिन वैश्विक स्तर पर खदानों से उत्पादन को नई या विस्तारित खदानों में अतिरिक्त उत्पादन और 2021 के पहले महीनों में कम उत्पादन के बाद रिकवरी से लाभ हुआ।
- दुनिया में खदानों से तांबे के सबसे बड़े उत्पादक देश चिली में 2022 के पहले चार महीने में तांबा उत्पादन में 7.4% की गिरावट हुई है।
- देश में कई खदानों को आमोडक्रोन संक्रमण की उच्च दर से संबंधित अनुपस्थिति, निम्न ग्रेड और लंबे समय तक सूखे के कारण पानी की कम आपूर्ति से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
- दुनिया में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश पेरू में खदानों से तांबे के उत्पादन में लगभग 2.8% की वृद्धि हुई।
- रिकवरी के बावजूद, 2022 के पहले चार महीनों में उत्पादन अभी भी 2019 (कोविड से पहले) की तुलना में 6.5% कम है।
- ग्रासबर्ग खदान से भूमिगत उत्पादन में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप इंडोनेशियाई उत्पादन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई।

रिफाईंड तांबे का उत्पादन

- 2022 के पहले चार महीनों में विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के उत्पादन में लगभग 3.4% की वृद्धि हुई।
- चीन में भी रिफाईंड तांबे के उत्पादन में 3% की वृद्धि हुई है।
- चिली का कुल रिफाईंड तांबा उत्पादन (इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोविनिंग) अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रहा।
- कांगो में नए या विस्तारित प्लांटों से उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी के कारण रिफाईंड तांबे का उत्पादन लगभग 20% बढ़ा है।
- जापान में तांबे का उत्पादन परिचालन संबंधी मुद्दों से प्रभावित था और 1% कम उत्पादन हुआ है।

तांबे का वैश्विक उपयोग

- 2022 के पहले चार महीनों में विश्व में स्पष्ट रूप से रिफाईंड तांबे के उपयोग में लगभग 2.2% की वृद्धि हुई है।
- कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन का विश्व अर्थव्यवस्था पर और बाद में चीन से बाहर के सभी क्षेत्रों में तांबे के अंतिम उपयोग क्षेत्रों पर उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- लेकिन 2020 की दूसरी छमाही में वैश्विक मांग में सुधार आना शुरू हुआ, लेकिन 2021 में रिफाईंड तांबे का उपयोग कुछ देशों में महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा।
- चीन से बाहर विश्व में रिफाईंड तांबे का उपयोग 2022 के पहले चार महीनों में 1.2% बढ़ने का अनुमान है।
- शुद्ध रिफाईंड तांबे के आयात में लगभग 7% की गिरावट के साथ चीन में प्रत्यक्ष उपयोग में 3% की वृद्धि हुई।
- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने अपने नवीनतम मासिक बुलेटिन में कहा कि विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में मार्च में 22,000 टन की कमी की तुलना में अप्रैल में 3,000 टन अधिशेष है।



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय तांबा अध्ययन समूह

तांबा आर्थिक गतिविधि और आधुनिक तकनीकी समाज के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की ओर वैश्विक रुझान के कारण लंबी अवधि में तांबे की मांग को मदद मिलती रहेगी। लेकिन प्रमुख उपभोक्ता चीन में निरंतर कोविड-19 प्रतिबंध, निरंतर सैन्य संघर्ष और कच्चे तेल और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से आक्रामक सख्ती से शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी की बढ़ती आशांका से वैश्विक सुधार के जोखिम में रहने की संभावना है।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एलए द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रायिकता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्यूरिटीज एक्ट के तहत उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।